

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2024—अग्रहायण 8, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024

क्र. 308—सा.प्र.वि.—2024.— माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की याचिका W.P. No. 7275—2019 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2024 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 07—19—2019—आ.प्र.—1, दिनांक 14 फरवरी 2024 मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. 676—16017123—2023—अठारह—1, दिनांक 16 फरवरी 2023 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. स्था.—एक—201—प्र.शि.—2024—3780, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 8—2—2013—आ.प्र.—एक, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024 एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 2461—1607123—2023—अठारह—1, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2024 तथा अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नानुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक—इन—इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है. इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र भर कर दिनांक 13 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से 6:00 सांयकाल तक आवेदन—पत्र प्रेषित करें. निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा. डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन—पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण वेतनमान निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और सुनने वाले	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	शीघ्रलेखक वर्ग-03	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	00	01	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संस्था मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कम्प्यूटर प्रचालन में सा.प्र.वि., म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता.
2.	लीडिंग फायरमेन	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	01	00	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि.
3.	फायरमेन	तृतीय श्रेणी	22100-70000 (लेवल-5)	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य.
4.	उपयंत्री सिविल	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (लेवल-8)	00	01	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा.
5.	समयपाल	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई.
6.	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	01	02	02	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता.
7.	उपस्वच्छता पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	01	01	02	02	12वीं कक्षा उत्तीर्ण
8.	सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (लेवल-8)	00	01	00	00	मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	माली (प्रशिक्षित)	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	01	00	01	8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा 05 वर्ष का अनुभव.
10.	इलेक्ट्रिशियन	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	01	00	00	संबंधित व्यवसाय में आईआईटी उत्तीर्ण अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) से उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण.
11.	लीडिंग फायरमेन (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि.
12.	फायरमेन (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	01	01	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य.
13.	सफाई संरक्षक (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	35	36	36	36	5वीं. कक्षा उत्तीर्ण.
कुल योग (174)				38	45	46	45	

हरेन्द्र नारायण, आयुक्त.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्र. स्था.-2024-भर्ती-5022.- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275-2019 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2024, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 07-19-2019-आ.प्र.-1, दिनांक 14 फरवरी 2024, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. 676-16017123-2023-अठारह-1, दिनांक 16 फरवरी 2024, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. स्था.-एक-201-प्र.शि.-2024-3780, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 8-2-2013-आ.प्र.-एक, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है. इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र भर कर दिनांक. को कार्यालयीन समय 6:00 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन -इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सहायक ग्रेड-03	तृतीय	19500-62000	00	00	01	00	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि प्रमाण-पत्र हो, साथ ही कम्प्यूटर पर 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिन्दी में टाइपिंग की दक्षता प्रमाण-पत्र हो.	
2.	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय	19500-62000 लेवल-4	00	00	01	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता.	वाक इन इंटरव्यू के लिये पृथक् से सूचना दी जावेगी.
3.	भृत्य	चतुर्थ	15500-49000 लेवल-1	00	00	00	01	05वीं उत्तीर्ण	
4.	जनसेवक (सफाई कर्मचारी)	चतुर्थ	15500-49000 लेवल-1	01	01	01	00	05वीं उत्तीर्ण	
संविदा									
2.	जनसेवक (सफाई कर्मचारी)	-	8000 अथवा प्रचलित कलेक्टर दर अनुसार अकुशल श्रेणी की निर्धारित मासिक राशि	01	01	02	02	05वीं उत्तीर्ण	

विनोद उन्नीतांन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.